

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 141]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 13 मार्च 2014—फाल्गुन 22, शक 1935

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (मध्यप्रदेश)—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2014

क्र. 65-01-2013-तीन-485.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अनुसरण में, एतद्वारा, नगरपालिका परिषद् सीधी, जिला सीधी के माह फरवरी, 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्र. नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
		पार्षद	पार्षद	
(1)	(2)	अंकों में	शब्दों में	(6)
1 नगरपालिका परिषद्, सीधी जिला-सीधी.	अध्यक्ष	—	—	देवेन्द्र सिंह “मुन्नु”
	पार्षद	1	एक	सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता
	पार्षद	2	दो	गीता के. के. तिवारी
	पार्षद	3	तीन	कंचन मनोज सिंह
	पार्षद	4	चार	ममता काशी केवट
	पार्षद	5	पांच	कमला कामदार
	पार्षद	6	छः	गोविन्द प्रसाद गुप्ता
	पार्षद	7	सात	सोनिया पत्नी भैयालाल गुप्ता
	पार्षद	8	आठ	तारावती साकेत
	पार्षद	9	नौ	मेनका प्रभात सिंह
	पार्षद	10	दस	शकुन्तला जायसवाल
	पार्षद	11	ग्यारह	विक्रम आनंद बहादुर सिंह
पार्षद	12	बारह	लल्लू कोल	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	13	तेरह	राजकुमार पटेल
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती प्रियंका रजनीश श्रीवास्तव
		पार्षद	15	पन्द्रह	अनिल कुमार श्रीवास्तव
		पार्षद	16	सोलह	सुखमन्ती परदेशी कोल
		पार्षद	17	सत्रह	नीरज गुप्ता
		पार्षद	18	अठारह	बृजेन्द्रमणि "बांके"
		पार्षद	19	उन्नीस	सनीम बानो (अब्दुल मजीद)
		पार्षद	20	बीस	भूपेन्द्र सिंह "महेन्द्र"
		पार्षद	21	इक्कीस	गौरी रामगोपाल
		पार्षद	22	बाईस	सुषमा सोनी-हल्के सोनी
		पार्षद	23	तेईस	मनमोहन सिंह
		पार्षद	24	चौबीस	रामलाल बर्मा (बारी)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.